



Chandra Gupta & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

C-3376, Basement,
Villaggio Vista, Greenfield Colony,
Faridabad, Haryana-121010
Phone : 0129-4167531
Mobile : 91-9811061146
E-mail : cgadelhi@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
शासी निकाय के सदस्य
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

अभिमत,

हमने डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारियाँ सम्मिलित हैं।

हमारे अभिमत में तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण विधि द्वारा अपेक्षित सूचना को अपेक्षित रूप में समाहित करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

Head Office: 177, Block-R, LGF, Greater Kailash-1, New Delhi-110048

Our Branches

- Faridabad
- Solan
- Chandigarh
- Mohali
- Noida
- Guwahati
- Jaipur
- Mumbai
- Jharkhand

Overseas :- Vancouver (Canada)

Head Office: 177, Block-R, LGF, Greater Kailash-1, New Delhi-110048

अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखा-परीक्षा, लेखा-परीक्षण मानकों (एसएसएस) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारे रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ" खंड में और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और टिप्पणियों के खंड में दिया गया है। हम इस संस्था से स्वतंत्र हैं और लेखा-परीक्षण के लिए प्रासंगिक आचार संहिता (आचार संहिता) के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि हमारे गैर-संशोधित अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमें प्राप्त लेखा-परीक्षा प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (लेखा सिद्धांत आम तौर पर स्वीकार किये जाते हैं) के अनुसार केंद्र की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, प्राप्तियों और भुगतान का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव शामिल है, ताकि धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोका और पता लगाया जा सके; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और लागू करना; यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान तैयार करना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सुनिश्चित करना, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे हों। ये नियंत्रण वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय विवरण सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करें तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी महत्वपूर्ण भ्रामक विवरण से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी भी महत्वपूर्ण भ्रामक विवरण (चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो) से मुक्त हैं और इसके आधार पर हम लेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट जारी करें जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है

यह कि हम प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा की योजना और निष्पादन इस तरह करें कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण भ्रामक विवरण से मुक्त हैं।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण से संबंधित लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण भ्रामक विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। इन जोखिम मूल्यांकनों को करते समय, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए संस्था के आंतरिक नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है, ताकि ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के अनुकूल हों। हालांकि, यह मूल्यांकन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर अभिमत व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है।

लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की यथार्थता और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा करने के लिए हमें जो प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारी लेखा परीक्षा के अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के वास्ते पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

ह./-

कृते चंद्र गुप्ता और एसोसिएट्स

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

फर्म पंजीकरण संख्या 000259 एन

ह./-

सीए अशोक कुमार गुप्ता

(पार्टनर)

एम. नंबर. 014845

यूडीआईएन: 25014845बीएमकेएसडी09441

दिनांक : 10.12.2025

स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

1. इस वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तकों के भंडार का वास्तविक रूप से सत्यापन नहीं किया गया है। अतः प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के अनुसार पुस्तकों के भण्डार की मात्रा और मूल्य को विचार में रखा गया है। पुस्तकों के अंतिम स्टॉक का विवरण विभिन्न वितरकों से प्राप्त नहीं किया गया है। अतः प्रतिष्ठान को यह सलाह दी जाती है कि विभिन्न वितरकों के स्थल पर जाकर पुस्तकों का वास्तविक किया जाए।
2. हमने यह पाया है कि नियत परिसंपत्तियों के रजिस्टर को प्रतिष्ठान द्वारा सही ढंग से नहीं रखा गया है । अतः हमने उन परिसंपत्तियों का वास्तविक रूप से सत्यापन नहीं किया है।
3. संस्थान, विभाग और अन्य एजेंसियों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं। तथापि, अभी तक उनसे उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसे पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्टों में भी सूचित किया गया है।

क्र.सं	संस्थानों के नाम	राशि (*) में
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	5,17,520
2	हैबिटेट वर्ल्ड	25,000
3	कोलकाता विश्वविद्यालय	2,00,000
4	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	5,00,000
5	डीएम- रत्नागिरी, महाराष्ट्र	62,40,000
6	डीसी और मजिस्ट्रेट, अलीबाग, महाराष्ट्र	1,36,00,000
7	डीसी-नागपुर (चिंचोली)	4,28,71,787

8	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी)	7,35,000
9	डीटीसी	69,350

4. प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में लंबित उपयोग प्रमाण पत्र/रसीदों की पावती:

क) डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना: लेखा परीक्षा के दौरान, हमने डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत विशेष बीमारियों का इलाज कराने के लिए एससी और एसटी के लाभार्थियों को दिए चिकित्सा अनुदान की जांच की है। हमने यह पाया है कि निम्नलिखित वर्षों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र अभी भी लंबित है।

क्र.सं.	वर्ष	लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के मामलों की संख्या	लंबित राशि
1	2016-17	14	27,94,254/-
2	2017-18	36	81,43,,000/-
3	2018-19	47	54,68,000/-
4	2019-20	37	83,87,128/-
5	2020-21	7	24,50,000/-
6	2021-22	60	1,39,04,000/-
7	2022-23	03	10,50,000/-
8	2023-24	35	90,23,268/-
9	2024-2025	50	1,35,09,838/-
कुल			6,47,29,488

प्रतिष्ठान को यह सलाह दी जाती है कि अस्पतालों से उपयोग प्रमाण पत्र तत्काल प्राप्त करें।

ख) एससी और एसटी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना : लेखा परीक्षा के दौरान, हमने डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना (कक्षा 10 और 12) के अंतर्गत एससी और एसटी श्रेणी से संबंधित मेधावी छात्रों को जारी योग्यता पुरस्कारों की जांच की है। हमने यह पाया है कि वर्ष 2015-16 और 2018-19 के लिए उपयोग प्रमाण पत्र, रसीदें/पावतियां अभी लंबित हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों (कक्षा 12वीं) के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार

क्र.सं.	वर्ष	लंबित उपयोग प्रमाण पत्र	
		मामलों की संख्या	राशि (रुपये में)
1	2015-16	197	65,00,000
2	2018-19	280	75,22,000

अनुसूचित जाति के छात्रों (कक्षा 10वीं) के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार

क्र.सं.	वर्ष	लंबित उपयोग प्रमाण पत्र	
		मामलों की संख्या	राशि (रुपये में)
1.	2018-19	200	48,90,000

ह./-

कृते चंद्र गुप्ता और एसोसिएट्स

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

फर्म पंजीकरण संख्या 000259 एन

ह./-

सीए अशोक कुमार गुप्ता

(पार्टनर)

एम. नंबर. 014845

यूडीआईएन: 25014845बीएमकेएसडी09441

दिनांक : 10.12.2025

स्थान : नई दिल्ली

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान			
15 जनपथ, नई दिल्ली - 110001			
तुलन पत्र			
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार			
(राशि रुपये में)			
विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक	पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक
<u>देयताएं</u>			
1. कॉर्पस निधि	1	93,00,00,000.00	92,00,00,000.00
2. रिज़र्व एवं अधिशेष	2	2,88,83,54,438.48	2,68,50,96,825.09
3. सहायता अनुदान	3	33,23,12,983.68	2,27,23,15,003.18
4. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	3,09,15,908.00	2,82,27,843.32
कुल		4,18,15,83,330.16	5,90,56,39,670.55
<u>परिसंपत्तियां</u>			
1. नियत परिसंपत्तियां	5	2,45,16,012.59	2,47,05,451.48
2. निवेश	6	3,88,85,76,173.00	3,62,35,62,173.00

3. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	7	26,84,91,144.57	2,25,73,72,046.07
कुल		4,18,15,83,330.16	5,90,56,39,670.55
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणियां	18		
ह./- कृते चंद्र गुप्ता और एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआरएन : 000259एन ह./- नंदू शॉ (वरिष्ठ लेखा अधिकारी) ह./- हेमंत श्रीवास्तव (वित्तीय सलाहकार) ह./- मनोज तिवारी (निदेशक) ह./- अशोक कुमार गुप्ता (पार्टनर) एम. नंबर. 014845 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 10/12/2025 यूडीआईएन: 25014845बीएमकेएसडी09441			

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान							
15 जनपथ, नई दिल्ली - 110001							
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार							
आय और व्यय संबंधी लेखा							
(राशि रुपये में)							
विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
		31 मार्च 2025 तक			31 मार्च 2024 तक		
		सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
<u>आय</u>							
- बिक्री से आय	8	4,15,108.00	-	4,15,108.00	3,27,219.00	-	3,27,219.00
- निवेश से आय	9	-	28,50,08,968.00	28,50,08,968.00	-	23,55,53,654.00	23,55,53,654.00
- अर्जित ब्याज	10	-	56,68,906.00	56,68,906.00	-	54,93,426.00	54,93,426.00
- अन्य आय	11	-	1,99,01,736.00	1,99,01,736.00	-	1,55,11,735.00	1,55,11,735.00
कुल (क)		4,15,108.00	31,09,94,718.00	31,09,94,718.00	3,27,219.00	25,65,58,815.00	25,68,86,034.00
<u>व्यय</u>							
- स्थापना व्यय	13	-	1,21,67,355.00	1,21,67,355.00	-	85,17,964.00	85,17,964.00
- योजनाओं पर व्यय	14	-	11,41,37,500.00	11,41,37,500.00	-	7,78,13,199.00	7,78,13,199.00
- अन्य कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर व्यय	15	-	97,33,831.00	97,33,831.00	-	97,70,682.00	97,70,682.00
- प्रशासनिक व्यय	16	-	82,12,741.00	82,12,741.00	-	9,47,80,580.00	9,47,80,580.89
-मूल्यहास	5	-	1,89,438.85	1,89,438.85	-	2,37,739.55	2,37,739.55
-स्टॉक में वृद्धि/कमी	12	4,26,322.50	4,26,322.50	4,26,322.50	7,72,565.50	-	7,72,565.50

कुल (ख)		4,26,322.50	14,44,40,865.85	14,48,67,188.35	7,72,565.50	19,11,20,164.55	19,18,92,730.05
समायोजन		-	-	-	-		
समायोजन के बाद व्यय (ग)		4,26,322.50	14,44,40,865.85	14,48,67,188.35	7,72,565.50	19,11,20,164.55	19,18,92,730.05
आय की तुलना में व्यय की अधिक राशि (ग)=(क-ख)	17	-11,214.50	16,61,38,744.15	16,61,27,529.65	-4,45,346.50	6,54,38,650.45	6,49,93,303.95
पूर्व अवधि समायोजन (घ)		-	-	-	-	24,500.00	24,500.00
आय की तुलना में निवल अधिक राशि (ग-घ)		-11,214.50	16,61,38,744.15	16,61,27,529.65	-4,45,346.50	6,54,14,150.45	6,49,68,803.95
सीडब्ल्यूबीए प्रकाशन/सामान्य रिजर्व में अंतरण		-11,214.50	16,61,38,744.15	16,61,27,529.65	-4,45,346.50	6,54,14,150.45	6,49,68,803.95
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	18						

ह./-

कृते चंद्र गुप्ता और एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 000259एन

कृते डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान

ह./-

नंदू शॉ

(वरिष्ठ लेखा अधिकारी)

ह./-

हेमंत श्रीवास्तव

(वित्तीय सलाहकार)

ह./-

मनोज तिवारी

(निदेशक)

ह./-

अशोक कुमार गुप्ता

(पार्टनर)

एम. नंबर. 014845

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10/12/2025

यूडीआईएन: 25014845बीएमकेएसडी09441

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

15 जनपथ, नई दिल्ली - 110001

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<u>प्रारंभिक जमा राशि</u>			<u>योजनाओं के प्रति भुगतान:</u>		
नकदी जमा राशि			- डॉ. अम्बेडकर पीठ	6,92,93,697.00	1,74,96,875.00
- बैंक में जमा राशि 40742339604	37,330.00	35,793.00	- डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना	2,10,50,014.00	2,30,24,431.00
- डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन खाता संख्या 55113200233	14,20,19,657.00	22,60,52,498.00	- अनुसूचित जाति के पीड़ितों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत	6,00,000.00	8,00,000.00
<u>पूंजी:</u>			- डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार	11,00,000.00	
- कॉर्पस फंड	1,00,00,000.00	2,00,00,000.00	(क) माध्यमिक परीक्षाएं	-	18,10,000.00
- सहायता अनुदान-डीएआईसी	29,00,00,000.00	15,50,00,000.00	(ख) उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं	-	1,61,80,000.00
			- डॉ.अम्बेडकर पुण्यतिथि	58,07,161.00	43,46,764.00
			- महान संतों का उत्सव (एनजीओ योजना)	32,41,731.00	25,01,893.00
<u>निवेश</u>			- अंतरजातीय विवाह के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना	27,50,000.00	1,60,00,000.00
- सावधि जमा राशि	3,60,49,86,000.00	3,38,35,93,173.00	- डॉ. अम्बेडकर डीएसीई योजना	1,61,02,058.00	
			- डॉ. अम्बेडकर जयंती	39,30,934.00	53,50,498.00
<u>राजस्व प्राप्तियाँ</u>			स्थापना और प्रशासनिक व्यय	1,94,66,844.68	10,40,20,721.00
-पुस्तकों की बिक्री	4,15,108.00	3,45,260.00			

-निवेश पर ब्याज	17,20,84,554.00	12,22,44,722.00	<u>अन्य भुगतान:</u>		
-अर्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं	12,82,88,711.00	18,39,93,068.00	- अनुदान-सहायता-डीएआईसी	29,00,00,000.00	15,50,00,000.00
-बचत खाते पर ब्याज 0233	56,68,906.00	54,93,426.00			
<u>विविध वसूली:-</u>			<u>कर्मचारियों को अग्रिम:</u>		
- वसूली - चिकित्सा सहायता योजना	1,80,99,382.00	1,20,01,921.00	- पुण्यतिथि के लिए अग्रिम	-	-
- डीएसीई योजना की वसूली	18,02,354.00	34,04,568.00	- आर.के. त्रिपाठी को अग्रिम	-	-
			- अनिल रावत को अग्रिम	-	14,291.00
<u>संस्था को दी गई अनुप्रयुक्त अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति:-</u>			<u>निवेश:</u>		
- दीक्षाभूमि	25,89,559.00	-	- बैंकों में सावधि जमा राशि	3,87,00,00,000.00	3,62,35,62,173.00
<u>विविध प्राप्ति</u>			<u>अंत शेष राशि:</u>		
- विविध आय	-	204.00	- नकदी जमा राशि	-	-
- पुस्तकों से अग्रिम	98,550.00	-	- बैंक में जमा राशि 40742339604	1,74,714.32	37,330.00
- मध्यस्थता व्यय के लिए दिया गया डीडी रद्द	16,89,824.00	-	- डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान खाता संख्या 55113200233	7,42,62,781.00	14,20,19,657.00
कुल	4,37,77,79,935.00	4,11,21,64,633.00	कुल	4,37,77,79,935.00	4,11,21,64,633.00
ह./- कृते चंद्र गुप्ता और एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआरएन : 000259एन ह./- नंदू शॉ (वरिष्ठ लेखा अधिकारी) ह./- हेमंत श्रीवास्तव (वित्तीय सलाहकार) ह./- मनोज तिवारी (निदेशक) ह./- अशोक कुमार गुप्ता					

(पार्टनर)

एम. नंबर. 014845

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10/12/2025

यूडीआईएन: 25014845बीएमकेएसडी09441

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15, जनपथ, नई दिल्ली-110001
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 1 कॉर्पोस निधि	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक		पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक	
(क) डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार	-	2,00,00,000.00	-	2,00,00,000.00
(ख) डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार	-	2,50,00,000.00	-	2,50,00,000.00
(ग) डॉ. अम्बेडकर पीठ		12,00,00,000.00	10,00,00,000.00	
जमा: प्राप्त निधि	-		2,00,00,000.00	12,00,00,000.00
(घ) डॉ. अम्बेडकर ओवरसीज फेलोशिप	-	8,00,00,000.00	-	8,00,00,000.00
(ङ) डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय	-	5,50,00,000.00	-	5,50,00,000.00
(च) भारत सरकार की कॉर्पोस निधि		63,00,00,000.00	-	
जमा: प्राप्त निधि	-		-	62,00,00,000.00
वर्ष के अंत में शेष राशि		93,00,00,000.00		92,00,00,000.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 2 रिजर्व एवं अधिशेष	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक		पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक	
(क) जनरल रिजर्व - डीएएफ	2,72,22,15,691.64		2,61,96,82,674.64	-
जमा: व्यय से अधिक आय	16,61,38,744.15	2,88,83,54,435.79	6,54,14,150.45	2,68,50,96,825.09
वर्ष के अंत में शेष राशि		2,88,83,54,435.79		2,68,50,96,824.16

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3 सहायता अनुदान	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक		पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक	
(क) सीडब्ल्यूबीए प्रकाशन	10,65,08,184.18		10,69,53,530.68	
जमा: व्यय से अधिक आय				10,65,08,184.18
घटा: आय से अधिक व्यय	-11,214.50	10,64,96,969.68	-4,45,346.50	99,00,000.00
(ख) सामान्य गतिविधियाँ		99,00,000.00		1,91,46,25,337.00
(ग) डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र निधि				
(घ) सीडब्ल्यूबीए ब्रेल प्रकाशन				
(ड) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्मारक निधि				2,41,55,027.00

(च) डॉ. अम्बेडकर-125वीं जयंती निधि				
जमा: सिक्कों की बिक्री				
घटा: 125वीं जयंती का खर्च		21,59,16,014.00		21,71,26,455.00
वर्ष के अंत में शेष राशि		33,23,12,983.68		2,27,23,15,003.18

(राशि रुपये में)				
अनुसूची 4	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
(क) <u>वर्तमान देयताएं</u>				
(क) वैधानिक देयताएं				
देय टीडीएस	105.00			
देय ईपीएफ	1,40,832.00		87,201.32	
देय सीजीईआईजीआईएस		1,40,937.00	240.00	87,441.32
(ख) देय खर्च				
देय वेतन - डीएएफ				
डीटीसी	8,312.00	8,312.00		
(ग) ग्राहकों से अग्रिम				
निदेशक, गुजरात लाइब्रेरी	37,314.00		37,314.00	
अन्य	98,550.00	1,35,864.00	-	37,314.00

(घ) विविध लेनदार				
आईटीडीसी अशोक टूर एंड ट्रेवल्स			-	
मेसर्स डिग्नस सर्विसेज			-	
आईटीडीसी (पीएचसी)			-	
अल्फा सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज			-	
(ङ) अन्य वर्तमान देयताएं				
प्रतिभूति जमा राशि- डिटेक्टिव प्रीमियर सिक्योरिटी	2,13,181.00		2,13,181.00	
देय लेखांकन प्रभार				
देय लेखापरीक्षा शुल्क				
		2,13,181.00		2,13,181.00
(ख) <u>प्रावधान</u>				
(क) इबे हुए ऋणों के लिए प्रावधान (ईटी एंड टी)	1,85,76,173.00		1,85,76,173.00	
(ख) पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	87,94,964.00		78,08,352.00	
(ग) देयताएं बंद करने का प्रावधान	13,56,653.00		15,05,382.00	
(घ) मुकदमेबाजी के लिए प्रावधान	16,89,824.00	3,04,17,614.00		2,78,89,907.00
वर्ष के अंत में शेष राशि		3,09,15,908.00		2,82,27,843.32

(राशि रुपये में)

अनुसूची 6 निवेश	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक		पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक	
क. <u>वर्तमान निवेश</u>				
(क) अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा				
भारतीय स्टेट बैंक	1,00,00,00,000.00		39,99,95,000.00	
केनरा बैंक (आईटीपीओ शाखा)	60,00,00,000.00		1,30,50,00,000.00	
इंडियन ओवरसीज बैंक				
बैंक ऑफ महाराष्ट्र			1,00,00,01,000.00	
पंजाब नेशनल बैंक			3,99,98,000.00	
यूनियन बैंक (आनंद निकेतन ब्रांच)	7,00,00,000.00		69,99,95,000.00	
यूनियन बैंक (मोती बाग)	1,55,00,00,000.00			
केनरा बैंक जनपथ	65,00,00,000.00	3,87,00,00,000.00	15,99,97,000.00	3,60,49,86,000.00
ख. <u>वर्तमान-गैर निवेश</u>				
ग. अन्य निवेश				
(क) ईटी एंड टी आईटीडी में निवेश (परिसमापन कंपनी)	1,85,76,173.00		1,85,76,173.00	
		1,85,76,173.00		1,85,76,173.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	3,88,85,76,173.00	3,88,85,76,173.00	3,62,35,62,173.00	3,62,35,62,173.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 7	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
क. इन्वेंटरी				
पुस्तकें	83,95,136.83	-	88,21,459.33	-
कागज	4,49,316.00	88,44,452.83	4,49,316.00	92,70,775.33
ख. विविध देनदार				
एनसीबीएच चेन्नई (तमिल)	13,98,546.00	-	13,98,546.00	-
इमेज ग्राफ़िक्स - कोलकाता	2,86,289.00	-	2,86,289.00	-
पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी - कोलकाता	4,10,000.00	-	4,10,000.00	-
निवास उड़ीसा (उड़िया)	13,50,047.00	-	13,50,047.00	-
		34,44,882.00		34,44,882.00
ग. अन्य वर्तमान परिपरीसंपत्तियां				
स्मारक भवन के लिए प्रारंभिक खर्च	11,31,648.00	11,31,648.00	11,31,648.00	11,31,648.00
घ. एफडी पर अर्जित ब्याज (अनुलग्नक)	11,29,24,414.00	11,29,24,414.00	12,82,88,711.00	12,82,88,711.00
ड. बैंक में जमा राशि				

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान खाता संख्या 55113200233	7,42,62,778.42		14,20,19.657.42	
एसबीआई खाता संख्या 40742359604 (ईपीएफ के लिए)	1,74,714.32	7,44,37,492.74	37,330.32	14,20,56,987.74
च. नकदी जमा राशि				
छ. ऋण एवं अग्रिम				
(क) कर्मचारियों को अग्रिम				
इग्नाटियस टोपनो	3,00,000.00	-	3,00,000.00	-
श्री अनिल रावत	-	-	14,291.00	-
सुधीर हिलसायन एडिटर	3,000.00	-	-	-
तनपरवेश	-	-	-	-
डी.पी.माझी	32,400.00	-	32,400.00	-
आर.के.त्रिपाठी	-	3,35,400.00	-	3,46,691.00
(ख) संस्थानों, विभागों और अन्य एजेंसियों को अग्रिम				
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	5,17,520.00	-	5,17,520.00	-
कोलकाता विश्वविद्यालय	2,00,000.00	-	2,00,000.00	-

डीटीसी	69,350.00	-	69,350.00	-
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	5,00,000.00	-	5,00,000.00	-
हैबिटेड वर्ल्ड	25,000.00	-	25,000.00	-
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	-	-	1,85,04,00,000.00	-
डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक खाता	-	-	2,20,85,027.00	-
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान खाता	-	-	2,91,76.469.00	-
		13,11,870.00		1,90,29,73,366.00
125वीं जयंती के लिए अग्रिम				
अग्रिम: डीएम रत्नागिरी	62,40,000.00	-	62,40,000.00	-
दीक्षाभूमि	-	-	38,00,000.00	-
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट. अलीबाग.महाराष्ट्र	1,36,00,000.00	-	1,36,00,000.00	-
जिला कलेक्टर. नागपुर	4,28,71,787.00	6,27,11,787.00	4,28,71,787.00	6,65,11,787.00
(ग) पुण्यतिथि के तहत अग्रिम	2,000.00	2,000.00	-	-
(ङ) प्रतिभूति जमा राशि				
विज्ञान भवन	75,00.00	-	75,00.00	-
एनडीपीएल	74,200.00	-	74,200.00	-
एमटीएनएल	12,000.00	-	12,000.00	-
मॉडेम सर्विस स्टेशन	10,000.00	-	10,000.00	-

प्रतिभूति जमा राशि की वापसी	15,000.00	1,86,200.00	15,000.00	1,86,200.00
(ज) एनआईएसजी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट)	7,34,550.00	7,34,550.00	7,34,550.00	7,34,550.00
ज. सहायक संपदा निदेशक	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00
झ. प्राप्य टीडीएस	24,19,908.00	24,19,908.00	24,19,908.00	24,19,908.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	26,84,91,144.57	-	2,25,73,72,046.07

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
15, जनपथ, नई दिल्ली – 110001
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
आय और व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 8 बिक्री से आय	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) पुस्तकों की बिक्री	4,15,108.00	-	4,15,108.00	3,27,219.00	-	3,27,219.00
(ख) पत्रिका का अंशदान	-	-	-	-	-	-
कुल	4,15,108.00	-	4,15,108.00	3,27,219.00	-	3,27,219.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 9 निवेश से आय	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) सावधि जमा राशि पर	-	-	-	-	-	-
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	28,50,08,968.00	28,50,08,968.00	-	23,55,53,564.00	23,55,53,564.00
कुल	-	28,50,08,968.00	28,50,08,968.00	-	23,55,53,564.00	23,55,53,564.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 10 अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) बचत खातों पर	-	-	-	-	-	-
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	56,68,906.00	56,68,906.00	-	54,93,426.00	54,93,426.00
कुल	-	56,68,906.00	56,68,906.00	-	54,93,426.00	54,93,426.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 11 अन्य आय	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) विविध आय	-	-	-	-	1,05,246.00	1,05,246.00
(ख) चिकित्सा सहायता योजना के तहत वापसी	-	1,80,99,382.00	1,80,99,382.00	-	1,20,01,921.00	1,20,01,921.00
(ग) डीएसीई योजना के तहत वसूली	-	18,02,354.00	18,02,354.00	-	34,04,568.00	34,04,568.00
कुल	-	1,99,01,736.00	1,99,01,736.00	-	1,55,11,735.00	1,55,11,735.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 12 स्टॉक में वृद्धि/कमी	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) प्रारंभिक स्टॉक						
(क) पुस्तकें	88,21,459.33	-	88,21,459.33	87,77,426.83	-	87,77,426.83
(ख) कागज	4,49,316.00	-	4,49,316.00	4,49,316.00	-	4,49,316.00
	92,70,775.33	-	92,70,775.33	92,26,742.83	-	92,26,742.83
(ख) खरीद						
घटा: स्टॉक समायोजन	-	-		-	-	-
निवल खरीद	-	-	-	8,16,598.00	-	8,16,598.00
(ग) घटा: समापन स्टॉक						
(क) पुस्तकें	83,95,136.83	-	83,95,136.83	88,21,459.33	-	88,21,459.33
(ख) कागज	4,49,316.00	-	4,49,316.00	4,49,316.00	-	4,49,316.00
	88,44,452.83	-	88,44,452.83	92,70,775.33	-	92,70,775.33
निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	4,26,322.50	-	4,26,322.50	7,72,565.50	-	7,72,565.50

(राशि रुपये में)

अनुसूची 13 स्थापना खर्च	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) नियमित कर्मचारियों को वेतन	-	1,00,37,257.00	1,00,37,257.00	-	60,97,103.00	60,97,103.00
(ख) संविदागत कर्मचारियों को वेतन	-	-	-	-	1,23,618.00	1,23,618.00
(ग) ईपीएफ (नियोक्ता का अंशदान)	-	6,23,753.00	6,23,753.00	-	5,58,911.00	5,58,911.00
(घ) चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति	-	1,17,945.00	1,17,945.00	-	92,032.00	92,032.00
(ई) बाल शिक्षा भत्ता	-	51,802.00	51,802.00	-	54,000.00	54,000.00
(ड) अवकाश यात्रा रियायत	-	76,629.00	76,629.00	-	2,01,321.00	2,01,321.00
(च) परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक	-	12,59,969.00	12,59,969.00	-	13,90,979.00	13,90,979.00
कुल	-	1,21,67,355.00	1,21,67,355.00	-	85,17,964.00	85,17,964.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 14 योजना पर व्यय	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) डॉ. अम्बेडकर पीठ	-	6,92,93,697.00	6,92,93,697.00	-	1,74,96,875.00	1,74,96,875.00
(ख) डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना	-	2,10,50,014.00	2,10,50,014.00	-	2,30,24,431.00	2,30,24,431.00
(ग) अनुसूचित जाति के पीड़ितों (अत्याचार) के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत	-	6,00,000.00	6,00,000.00	-	8,00,000.00	8,00,000.00
(घ) डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार	-	-	-	-	-	-
(i) माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 10)	-	6,10,000.00	6,10,000.00	-	18,10,000.00	18,10,000.00
(ii) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 12)	-	4,90,000.00	4,90,000.00	-	1,61,80,000.00	1,61,80,000.00
(ङ) अंतरजातीय विवाह योजना	-	27,50,000.00	27,50,000.00	-	1,60,00,000.00	1,60,00,000.00
(च) महान संतों का समारोह	-	32,41,731.00	32,41,731.00	-	25,01,893.00	25,01,893.00
(छ) डॉ. अम्बेडकर डीएसीई योजना	-	1,61,02,058.00	1,61,02,058.00	-	-	-
कुल	-	11,41,37,500.00	11,41,37,500.00	-	7,78,13,199.00	7,78,13,199.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 15 अन्य कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर व्यय	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) डॉ. अम्बेडकर जयंती/पुण्यतिथि	-	-	-	-	-	-
(क) समारोह व्यय	-	97,33,831.00	97,33,831.00	-	97,17,262.00	97,17,262.00
(ख) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह व्यय	-	-	-	-	53,420.00	53,420.00
कुल	-	97,33,831.00	97,33,831.00	-	97,70,682.00	97,70,682.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 16 प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) वाहन किराये का प्रभार	-	9,18,636.00	9,18,636.00	-	3,96,111.00	3,96,111.00
(ख) अनंतिम व्यय	-	-1,48,729.00	-1,48,729.00	-	14,46,382.00	14,46,382.00
(ग) बिजली और पानी प्रभार	-	19,448.00	19,448.00	-	10,608.00	10,608.00
(घ) लेखापरीक्षा शुल्क	-	-	-	-	59,000.00	59,000.00
(ई) मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	4,98,367.00	4,98,367.00	-	44,958.00	44,958.00
(इ) डाक व्यय	-	3,49,312.00	3,49,312.00	-	1,35,685.00	1,35,685.00
(च) टेलीफोन व्यय	-	2,39,922.00	2,39,922.00	-	25,368.00	25,368.00
(छ) सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग व्यय	-	14,23,604.00	14,23,604.00	-	18,89,729.00	18,89,729.00
(ज) विज्ञापन एवं प्रचार	-	2,27,706.00	2,27,706.00	-	50,07,138.00	50,07,138.00
(झ) कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	-	8,35,549.00	8,35,549.00	-	2,37,955.00	2,37,955.00
(ञ) बैंक प्रभार	-	-	-	-	-	-
(ट) बैठक संबंधी व्यय	-	1,13,750.00	1,13,750.00	-	1,35,126.00	1,35,126.00
(ठ) विविध व्यय	-	1,90,372.00	1,90,372.00	-	27,516.00	27,516.00
(ड) मध्यस्थता व्यय	-	-	-	-	8,24,28,191.00	8,24,28,191.00
(ढ) प्रिंटिंग-वार्षिक रिपोर्ट व्यय	-	-	-	-	1,43,400.00	1,43,400.00
(ण) मरम्मत एवं रखरखाव - कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	1,10,922.00	1,10,922.00
(त) कार्यालय शिफ्टिंग व्यय	-	-	-	-	8,207.00	8,207.00
(थ) नवीनीकरण और आंतरिक फिट-डीएएफ	-	-	-	-	-	-
(द) पेंशन एवं अवकाश नकदीकरण	-	9,86,612.00	9,86,612.00	-	8,96,920.00	8,96,920.00
(ध) डीईओ व्यय	-	24,94,534.00	24,94,534.00	-	12,30,885.00	12,30,885.00
(न) वाहन व्यय	-	63,658.00	63,658.00	-	4,82,863.00	4,82,863.00
(प) प्रमाणन व्यय	-	-	-	-	10,560.00	10,560.00

(फ) अनुवाद एवं टाइपिंग व्यय	-	-	-	-	36,300.00	36,300.00
(ब) इंटरनेट प्रभार	-	-	-	-		
(भ) सुरक्षा लेखा परीक्षा व्यय	-	-	-		16,756.00	16,756.00
कुल	-	82,12,741.00	82,12,741.00	-	9,47,80,580.00	9,47,80,580.00

(राशि रुपये में)

अनुसूची 17 पूर्व अवधि समायोजन	वर्तमान वर्ष 31 मार्च 2025 तक			पिछला वर्ष 31 मार्च 2024 तक		
	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल	सीडब्ल्यूबीए	डीएएफ	कुल
(क) पुण्यतिथि व्यय	-	-	-	-	24,500.00	24,500.00
कुल	-	-	-	-	24,500.00	24,500.00

बैंक संराधन विवरण-वित्तीय वर्ष 2024-25	
भारतीय स्टेट बैंक- बचत खाता संख्या- 55113200233	
लेखा बही के अनुसार बैंक में जमा राशि	7,42,62,778
बैंक के विवरण के अनुसार जमा राशि	7,42,62,781

भारतीय स्टेट बैंक- बचत खाता संख्या- 55113200233	
लेखा बही के अनुसार बैंक में जमा राशि	1,74,714
बैंक के विवरण के अनुसार जमा राशि	1,74,714

(राशि रुपये में)

अनुसूची 5											
नियत परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास अनुसूची											
नियत परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक						मूल्यहास			निवल ब्लॉक	
	मूल्यहास की दर	मूल लागत/मूल्य 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान जमा राशि		वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.2025 तक कुल लागत	01.04.2024 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	31.03.2025 तक कुल मूल्यहास	31.03.2025 को डब्ल्यूडीवी	31.03.2024 को डब्ल्यूडीवी
			30 सितंबर से पहले	30 सितंबर के बाद							
मूर्त परिसंपत्तियां	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
अम्बेडकर लाइब्रेरी के लिए ज़मीन (लीज़ पर)	-	74,32,030.00	-	-	-	74,32,030.00	-	-	-	74,32,030.00	74,32,030.00
ज़मीन-स्मारक	-	1,60,35,360.00	-	-	-	1,60,35,360.00	-	-	-	1,60,35,360.00	1,60,35,360.00
फोटोस्टेट मशीन	0.40	17,723.84	-	-	-	17,723.84	5,67,558.27	7,089.53	5,74,647.81	10,634.30	17,723.84
प्रिंटर	0.40	37,387.14	-	-	-	37,387.14	3,37,000.10	14,954.86	3,51,954.96	22,432.28	37,387.14
मोबाइल फ़ोन	0.15	1,321.72	-	-	-	1,321.72	18,392.04	198.26	18,590.29	1,123.46	1,321.72
सीसीटीवी कैमरा	0.40	34.99	-	-	-	34.99	3,03,595.68	14.00	3,03,609.68	21.00	34.99
कंप्यूटर	0.40	7,408.45	-	-	-	7,408.45	15,26,237.58	2,963.38	15,29,200.96	4,445.07	7,408.45
कार्यालय उपकरण	0.15	1,03,416.75	-	-	-	1,03,416.75	5,75,673.24	15,512.51	5,91,185.75	87,904.23	1,03,416.75
थ्री व्हीलर	0.15	204.63	-	-	-	204.63	46,613.26	30.69	46,643.96	173.93	204.63
ट्यूबवेल- स्मारक	0.10	66,177.53	-	-	-	66,177.53	2,30,869.42	6,617.75	2,37,487.17	59,559.77	66,177.53
फर्नीचर	0.10	3,50,484.03	-	-	-	3,50,484.03	9,36,202.30	35,048.40	9,71,250.71	3,15,435.62	3,50,484.03
गैलरी	0.10	98,323.15	-	-	-	98,323.15	7,40,752.06	9,832.31	7,50,584.37	88,490.83	98,323.15
प्रतिमा -डॉ. बी.आर.अम्बेडकर	0.10	3,283.78	-	-	-	3,283.78	9,951.36	328.38	10,279.73	2,955.40	3,283.78
फोटोग्राफ़	0.10	1,32,894.37	-	-	-	1,32,894.37	2,54,920.59	13,289.44	2,68,210.03	1,19,604.93	1,32,894.37
बहुमूल्य डीवीडी-डॉ. बी.आर.अम्बेडकर	0.40	6,169.74	-	-	-	6,169.74	2,29,697.10	2,467.90	2,32,165.00	3,701.84	6,169.74
लाइब्रेरी की पुस्तकें	0.40	18.01	-	-	-	18.01	4,47,682.98	7.21	4,47,690.18	10.81	18.01

फ्रैंकिंग मशीन	0.15	24,044.13	-	-	-	24,044.13	99,238.79	3,606.62	1,02,845.41	20,437.51	24,044.13
स्टील शेल्विंग रैक	0.10	3,561.97	-	-	-	3,561.97	7,292.26	356.20	7,648.46	3,205.77	3,561.97
कुल		2,43,19,844.21	-	-	-	2,43,19,844.21	60,83,060.22	1,12,317.43	64,43,994.46	2,42,07,526.78	2,43,19,844.21
अमूर्त परिसंपत्तियां											
टेलीसीरियल	0.20	3,85,607.27	-	-	-	3,85,607.27	23,90,990.91	77,121.45	24,68,112.37	3,08,485.82	3,85,607.27
कुल		3,85,607.27	-	-	-	3,85,607.27	23,90,990.91	77,121.45	24,68,112.37	3,08,485.82	3,85,607.27
कुल योग		2,47,05,451.48	-	-	-	2,47,05,451.48	84,74,051.13	1,89,438.85	89,12,106.82	2,45,16,012.59	2,47,05,451.48

31 मार्च, 2025 तक पुस्तकों और कागजों के स्टॉक का विवरण							
क.स.	विवरण	31.03.2025 को अंतिम स्टॉक			31.03.2024 को अंतिम स्टॉक		
		मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	दर	मूल्य
क.	पुस्तकों का स्टॉक	71,836.00	229.51	83,95,136.83	72,026.00	229.51	88,21,459.33
1	बंगला पुस्तकें	12344 पुस्तकें	42.98	5,30,489.94	12344 पुस्तकें	42.98	5,30,489.94
2	अंग्रेजी सेट	2632 सेट	2250.00	59,22,000.00	2821 सेट	2250.00	63,47,250.00
3	गुजराती पुस्तकें	32625 पुस्तकें	30.10	9,81,919.85	32625 पुस्तकें	30.10	9,81,919.85
4	हिंदी पुस्तकें (1-40)	47 पुस्तकें	1072.50	50,407.50	48 पुस्तकें	1072.5	51,480.00
5	उड़िया पुस्तकें	1100 पुस्तकें	52.50	57,750.00	1100 पुस्तकें	52.5	57,750.00
6	पंजाबी पुस्तकें	3800 पुस्तकें	27.72	1,05,335.32	3800 पुस्तकें	27.72	1,05,335.32
7	तमिल पुस्तकें	15582 पुस्तकें	40.90	6,37,380.00	15582 पुस्तकें	40.9	6,37,380.00
8	उर्दू पुस्तकें	3706 पुस्तकें	29.64	1,09,854.22	3706 पुस्तकें	29.64	1,09,854.22
ख.	प्रकाशन के लिए कागजों का स्टॉक			4,49,316.00			4,49,316.00
	कुल योग	71,836.00		88,44,452.83	72,026.00		92,70,775.33

31 मार्च, 2025 तक पुस्तकों और कागजों के स्टॉक का विवरण								
क.स.	विवरण	31.03.2025 को अंतिम स्टॉक			31.03.2024 को अंतिम स्टॉक			अंतर- समायोजन किया जाना है
		मात्रा	दर	मूल्य	मात्रा	दर	मूल्य	
क.	पुस्तकों का स्टॉक	71,836.00	229.51	83,95,136.83	72,026.00	229.51	88,21,459.33	-4,26,322.50
1	बंगला पुस्तकें	12344 पुस्तकें	42.98	5,30,489.94	12344 पुस्तकें	42.98	5,30,489.94	
2	अंग्रेजी सेट	2632 सेट	2250.00	59,22,000.00	2821 सेट	2250.00	63,47,250.00	-4,25,250.00
3	गुजराती पुस्तकें	32625 पुस्तकें	30.10	9,81,919.85	32625 पुस्तकें	30.10	9,81,919.85	
4	हिंदी पुस्तकें (1-40)	47 पुस्तकें	1072.50	50,407.50	48 पुस्तकें	1072.5	51,480.00	-1,072.50
5	उड़िया पुस्तकें	1100 पुस्तकें	52.50	57,750.00	1100 पुस्तकें	52.5	57,750.00	
6	पंजाबी पुस्तकें	3800 पुस्तकें	27.72	1,05,335.32	3800 पुस्तकें	27.72	1,05,335.32	
7	तमिल पुस्तकें	15582 पुस्तकें	40.90	6,37,380.00	15582 पुस्तकें	40.9	6,37,380.00	
8	उर्दू पुस्तकें	3706 पुस्तकें	29.64	1,09,854.22	3706 पुस्तकें	29.64	1,09,854.22	
ख.	प्रकाशन के लिए कागजों का स्टॉक	-	-	4,49,316.00	-	-	4,49,316.00	
	स्टॉक (एनआरवी के अनुसार क्लोजिंग वैल्यू)-(i)	71,836.00		88,44,452.83	72,026.00		92,70,775.33	-4,26,322.50
	स्टॉक (लागत के अनुसार क्लोजिंग वैल्यू)-(ii)	71,836.00		1,61,22,806.79			1,70,65,799.03	(9,42,992.24)
	पुनर्मूल्यांकन क्षति बुक की जानी चाहिए- (ii-i)			72,78,353.96			77,95,023.70	-5,16,669.74

31.03.2024 तक बुक की गई पुनर्मूल्यांकन क्षति			77,95,023.70				-4,26,322.50
वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्मूल्यांकन क्षति उलट दी गई			-5,16,669.74				

वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्मूल्यांकन क्षति की गणना पुस्तक-वार उलट दी गई			
पुस्तकों का स्टॉक	स्टॉक में परिवर्तन	दर में परिवर्तन	राशि
अंग्रेजी सेट	-189 सेट	2720.38	-514151.82
हिंदी पुस्तकें (1-40)	-1 पुस्तक	2517.06	-2517.06
अंग्रेजी पुस्तक के सेट की क्लोजिंग दर में परिवर्तन होने की वजह से अंतर			0
कुल			(5,16,668.88)
अनुमान के कारण अंतर			-0.86
अंकित की जाने वाली पुनर्मूल्यांकन क्षति			(5,16,669.74)

31-03-2025 को निवेश का समापन																								
क्र. सं.	निवेश की गई राशि	दस्तावेज संख्या	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	निवेश की अवधि (दिन)	व्याज की दर	वार्षिक प्राप्ति तारीख	निवेश की राशि	व्याज राशि	परिपक्वता राशि	प्राप्त राशि	अंतर	निवेश की अवधि	2021-22 के लिए अर्जित व्याज	2022-23 के लिए अर्जित व्याज	2023-24 के लिए अर्जित व्याज	2024-25 के लिए व्याज	कुल व्याज	31-03-2024 तक शेष राशि	प्रमाणपत्र के अनुसार शेष राशि	वर्तमान निवेश	निवेश की अवधि	प्रमाणपत्र के अनुसार व्याज 2024-25 के अनुसार	2024-25 में मान्यता प्राप्त व्याज और सर्टिफिकेट के बीच अंतर
बैंक ऑफ़ इंडिया																								
1	बैंक ऑफ़ इंडिया	22750300040869	26-10-2023	26-10-2024	365	7.55%	28-10-2024	10,00,00,000	77,66,462	10,77,66,462	10,73,56,668	- 4,09,794	1 वर्ष	0	0	32,93,657	40,63,011	32,93,657	10,32,93,657	10,32,93,657	10,00,00,000	1 वर्ष		
2	बैंक ऑफ़ इंडिया, होन खास ब्रांच	22750300033603	15-02-2022	16-02-2025	1007	5.35%	17-02-2825	1,99,99,000	34,60,252	2,34,59,252	4,65,54,154	- 3,64,350	3 वर्ष 1 दिन	138058	5,55,323	11,53,067	28,66,279	18,46,448	2,18,45,448	2,18,45,448	1,99,99,000	3 वर्ष 1 दिन		
3	बैंक ऑफ़ इंडिया, होन खास ब्रांच	22750300033608	16-02-2022	17-02-2025	1097	535%	17-03-2025	1,99,99,000	34,60,252	2,34,59,252			3 वर्ष 1 दिन	135181	35,534	11,52,904		18,43,427	2,18,42,427	2,18,42,427	1,99,99,000	3 वर्ष 1 दिन		
4	बैंक ऑफ़ इंडिया, होन खास ब्रांच	22750300033618	17-02-2022	18-02-2025	1097	5.35%	18-02-2025	1,99,99,000	34,60,252	2,34,59,252	2,32,75,420	- 1,83,832	3 वर्ष 1 दिन	132305	5,55,362	11,52,740	14,36,013	18,40,407	2,18,39,407	2,18,39,407	1,99,99,000	3 वर्ष 1 दिन		
5	टीडीएस का जमा हुआ व्याज वापस कर दिया गया										6,30,908.00	6,30,908					6,30,908							
कुल								15,99,97,000	1,81,47,218	17,81,44,218	17,78,17,150	- 3,27,068		4,05,544	16,66,027	67,52,368	89,96,211	88,23,939	16,88,20,939	16,88,20,939	15,99,97,000			

बैंक ऑफ महाराष्ट्र																							
1	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूपीएससी शाखा	60472300361	19.12.2023	19-12-2024	365	7.75%	19-12-2024	1,00,00,01,000	7,97,81,657	1,07,97,82,657	1,07,97,82,657	1 वर्ष	0	0	2,21,65,838	5,76,15,819	2,21,65,838	1,02,21,66,838	1,02,21,66,838	1,00,00,01,000	1 वर्ष	5,76,15,819	
कुल								1,00,00,01,000	7,97,81,667	1,07,97,82,667	1,07,97,82,657	1 वर्ष	0	0	2,21,65,838	5,76,15,819	2,21,65,838	1,02,21,66,838	1,02,21,66,838	1,00,00,01,000	1 वर्ष		

केनरा बैंक																								
1	केनरा बैंक, आईटीपीओ शाखा	135000164855/1	02.09.2023	02-09-2024	366	7.65%	02-09-2024	15,00,00,000	1,15,06,438	16,15,16,438	16,15,06,439	-1	366 दिन	0	0	66,64,932	48,41,507	66,64,932	15,66,64,932	15,66,64,932	15,00,00,000	366 दिन	48,41,507	
2	केनरा बैंक, आईटीपीओ शाखा	135000203520/1	08.01.2024	08-01-2025	366	7.75%	08-01-2025	62,00,00,000	4,81,81,644	66,81,81,644	66,81,81,644		366 दिन	0	0	1,10,58,082	3,71,23,562	1,10,58,082	63,10,38,082	63,10,38,082	62,00,00,000	366 दिन	3,71,23,562	
3	केनरा बैंक, जनसथ शाखा	1450001796182	27-04-2023	27-04-2024	365	7.75%	29-04-2024	33,50,00,000	2,67,26,828	36,17,26,828	36,17,26,828		1 वर्ष	0	0	2,47,40,645	19,86,183	2,47,40,645	35,97,40,645	35,97,40,645	33,50,00,000	1 वर्ष	19,86,183	
4	केनरा बैंक, जनसथ शाखा	135000003520/2	05-03-2024	06-03-2025	366	7.85%	06-03-2025	20,00,00,000	1,57,43,014	21,57,43,014	21,57,43,014		366 दिन	0	0	11,61,370	1,45,81,644	11,61,370	20,11,61,370	20,11,61,370	20,00,00,000	366 दिन	1,45,81,644.00	0
कुल								1,30,50,00,000	10,21,57,924	1,40,71,57,924	1,40,71,57,925	-1		0	0	4,36,25,629	5,85,32,896	4,36,25,029	1,34,86,25,029	1,34,86,25,029	1,30,50,00,000		5,85,32,896	

पंजाब नेशनल बैंक																								
1	पीएनबी, पार्लियामेंट स्ट्रीट	015300U1 0000333 O	15-02-2022	16-02-2025	1097	5.30%	18-02-2025	1,99,99,000	34,25,519	2,34,24,319	2,34,27,920	-3,401	3 वर्ष 1 दिन	1,36,767	10,88,595	11,47,446	10,56,112	23,72,808	2,23,71,808	2,23,71,808	1,99,99,000	3 वर्ष 1 दिन		
2	पीएनबी, पार्लियामेंट स्ट्रीट	015300U1 0000332I	16-02-2022	17-02-2025	1097	5.30%	18-02-2025	1,99,99,000	34,25,519	2,34,24,519	2,34,24,519		3 वर्ष 1 दिन	1,33,918	1,08,440	11,47,284	10,55,877	23,69,642	2,23,68,642	2,23,68,642	1,99,99,000	3 वर्ष 1 दिन		
कुल								3,99,98,000	68,51,038	4,68,49,038	4,68,52,439	-3,401		2,70,685	21,77,035	22,94,730	21,11,989	47,42,450	4,47,40,450	4,47,40,450	3,99,98,000			

भारतीय स्टेट बैंक																								
1	एसबीआई, शास्त्री भवन	40901765 684	06-04-2022	07-04-2024	732	5.20%	10-04-2024	1,99,99,000	21,80,192		2,21,84,114	4,922	2 वर्ष 1 दिन	0	10,45,389	11,16,007	23,718	21,61,396	2,21,60,396	2,21,60,396	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	23,718	
2	एसबीआई, शास्त्री भवन	40903865 836	07-04-2002	08-04-2024	732	5.20%	10-04-2024	1,99,99,000	21,80,192		2,21,82,473	3,281	2 वर्ष 1 दिन	0	10,42,387	11,15,883	25,203	21,58,276	2,21,57,270	2,21,57,270	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	25,204	1
3	एसबीआई, शास्त्री भवन	40906356 495	08-04-2022	09-04-2024	732	3.20%	10-04-2024	1,99,99,000	21,80,192		2,21,80,833	1,641	2 वर्ष 1 दिन	0	10,30,384	11,15,758	26,691	21,55,142	2,21,54,142	2,21,54,142	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	26,692	1
4	एसबीआई, शास्त्री भवन	40914674 453	11-04-2022	12-04-2024	732	5.20%	12-04-2024	1,99,99,000	21,80,192		2,21,79,192		2 वर्ष 1 दिन	0	10,30,375	11,15,385	34,432	21,45,760	2,21,44,760	2,21,44,760	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	34,433	1
5	एसबीआई, शास्त्री भवन	40914673 992	12-04-2002	13-04-2024	732	5.20%	15-04-2024	1,99,99,000	21,80,192		2,21,82,473	3,281	2 वर्ष 1 दिन	0	10,27,372	11,15,260	40,841	21,42,632	2,21,41,632	2,21,41,632	1,09,99,000	2 वर्ष 1 दिन	40,841	
6	भारतीय स्टेट बैंक	42159349 072	08-08-2023	09-08-2024	366	7.70%	09-08-2024	30,00,00,000	2,38,43,917	32,38,43,917	32,38,43,917		1 वर्ष 1 दिन	0	0	1,51,94,195	86,49,722	1,51,94,195	31,51,94,195	31,51,94,195	30,00,00,000	1 वर्ष 1 दिन	86,49,723	1
कुल								39,99,95,000	3,47,44,877	43,47,39,877	43,47,53,002	13,125		0	51,84,907	2,07,72,488	88,00,607	2,59,57,395	42,59,52,395	42,59,52,395	39,99,95,000		88,00,611	4

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया																								
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्रमशक्ति भवन	62810303 0006627	06-04-2022	07-04-2024	732	5.30%	09-04-2024	1,99,99,000	22,34,079		2,22,23,079		2 वर्ष 1 दिन	0	10,63,416	11,38,691	21,972	22,02,107	2,22,01,107	2,22,01,107	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	29,034	7,052
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्रमशक्ति भवन	62810303 0006629	07-04-3022	08-04-2024	732	5.30%	09-04-2024	1,99,99,000	22,24,079		2,22,24,845	1,766	2 वर्ष 1 दिन	0	10,60,452	11,38,531	26,862	21,98,983	2,21,97,983	2,21,97,983	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	28,628	1,766
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्रमशक्ति भवन	62810303 0006631	08-04-2022	09-04-2024	732	5.30%	09-04-2024	1,99,99,000	22,24,079		2,22,26,510	3,531	2 वर्ष 1 दिन	0	10,57,487	11,38,371	31,752	21,95,858	2,21,94,858	2,21,94,858	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	28,221	-3,531
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्रमशक्ति भवन	62810303 0006635	11-04-2022	12-04-2024	732	5.30%	12-04-2024	1,99,99,000	22,24,079		2,22,23,079		2 वर्ष 1 दिन	0	10,48,595	11,37,890	37,594	21,86,485	2,21,85,485	2,21,85,485	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	37,594	
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्रमशक्ति भवन	62810303 0006637	12-04-3022	13-04-2024	732	5.30%	15-04-2024	1,99,99,000	22,24,079		2,22,29,533	6,454	2 वर्ष 1 दिन	0	10,45,631	11,37,730	47,172	21,83,361	2,21,82,361	2,21,82,361	1,99,99,000	2 वर्ष 1 दिन	53,626	6,454

6	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्रमशक्ति भवन	352403030656880	23.12.2023	28-12-2024	365	7.75%	30-12-2024	60,00,00,000	4,78,68,946	64,78,68,946	64,78 68,946		1 वर्ष	0	0	1,20,07,266	3,58,61,680	1,20,07,266	61,20,07,266	61,20,07,266	60,00,00,000	1 वर्ष	3,38,61,680	
कुल								69,99,95,000	5,89,89,341	75,89,84,341	75,89,96,092	11,751		0	52,75,581	1,76,98,479	3,60,27,032	2,29,74,060	72,29,09,060	72,29,09,060	69,99,95,000		3,64,38,783	11,751
कुल								36,04,86,000	30,06,72,055	3,90,56,58,055	3,90,53,59,265	- 3,05,594		6,76,229	1,43,03,550	11,33,06,932	17,20,84,554	12,82 88,711	3,73,32,74,711	3,73,32,74,711	3,60,49,86,000			

31-03-2025 को निवेश का समापन											
क्र.सं	निवेश की गई राशि	दस्तावेज संख्या	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	निवेश की अवधि (दिन)	ब्याज की दर	निवेश की राशि	ब्याज राशि	परिपक्वता राशि	निवेश की अवधि	2024-25 के लिए अर्जित ब्याज
केनरा बैंक, आईटीपीओ शाखा											
1	केनरा बैंक, आईटीपीओ शाखा	135000203520/3	21-05-2024	21-05-2025	365	7.68%	60,00,00,000	4,60,80,000	64,60,80,000	1 वर्ष	3,97,67,671.00
कुल							60,00,00,000	4,60,80,000	64,60,80,000		3,97,67,671

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मोती बाग शाखा											
1	यूबीआई, मोती बाग शाखा	677703030003610	23-08-2024	23-08-2025	365	7.80%	35,00,00,000	2,81,08,956	37,81,08,956	1 वर्ष	1,67,57,894.00
2	यूबीआई, मोती बाग शाखा	677703030003656	13-09-2024	13-09-2025	365	7.78%	15,00,00,000	1,20,14,909	16,20,14,909	1 वर्ष	64,78,602.00
3	यूबीआई, मोती बाग शाखा	677703030003839	15-01-2025	15-01-2026	365	7.92%	70,00,00,000	5,71,08,410	75,71,08,410	1 वर्ष	1,16,24,516.00
4	यूबीआई, मोती बाग शाखा	677703030003945	18-03-2025	18-03-2026	365	7.77%	35,00,00,000	2,79,97,706	37,79,97,706	1 वर्ष	9,50,363.00
कुल							1,55,00,00,000	12,52,29,981	1,67,52,29,981	1 वर्ष	3,58,11,375

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आनंद निकेतन ब्रांच											
1	यूबीआई, आनंद निकेतन ब्रांच	403503030164688	18-11-2024	18-11-2025	365	7.68%	7,00,00,000	55,32,820	7,55,32,820	1 वर्ष	19,92,080.00
कुल							7,00,00,000	55,32,820	7,55,32,820		19,92,080

भारतीय स्टेट बैंक, शास्त्री भवन											
1	भारतीय स्टेट बैंक, शास्त्री भवन	43637041911	19-12-2024	19-12-2025	365	7.85%	1,00,00,00,000	8,08,41,226	1,08,08,41,226	1 वर्ष	2,24,52,520.00
कुल							1,00,00,00,000	8,08,41,226	1,08,08,41,226		2,24,52,520

केनरा बैंक, जनपथ शाखा											
1	केनरा बैंक, जनपथ शाखा	145000558195/1	30-12-2024	31-12-2025	366	7.85%	65,00,00,000	5,26,97,892	70,26,97,892	1 वर्ष 1 दिन	1,29,00,768.00
कुल							65,00,00,000	5,26,97,892	70,26,97,892		1,29,00,768

सावधि जमा राशि पर ब्याज का सारांश								
बंद सावधि जमा राशि पर ब्याज								
क्र.सं	बैंक का नाम	निवेश की राशि	कुल परिपक्व राशि	ब्याज 2024-25	उपार्जित ब्याज 2023-24	उपार्जित ब्याज 2022-23	उपार्जित ब्याज 2021-22	उपार्जित ब्याज को उलट दिया जाएगा।
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	15,99,97,000.00	17,81,44,218.00	89,96,211.00	67,52,368.00	16,66,027.00	4,05,544.00	88,23,939.00
2	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,00,00,01,000.00	1,07,97,82,657.00	5,76,15,819.00	2,21,65,838.00			2,21,65,838.00
3	केनरा बैंक	1,30,50,00,000.00	1,40,71,57,923.70	5,85,32,895.70	4,36,25,029.00			4,36,25,029.00
4	पंजाब नेशनल बैंक	3,99,98,000.00	4,68,49,038.00	21,11,989.00	22,94,730.00	21,77,035.00	2,70,685.00	47,42,450.00
5	भारतीय स्टेट बैंक	39,99,95,000.00	43,47,39,877.00	88,00,607.00	2,07,72,488.00	51,84,907.00		2,59,57,395.00
6	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	69,99,95,000.00	75,89,84,341.00	3,60,27,032.00	1,76,98,479.00	52,75,581.00		2,29,74,060.00
	कुल	3,60,49,86,000.00	3,90,56,58,054.70	17,20,84,553.70	11,33,08,932.00	1,43,03,550.00	6,76,229.00	12,82,88,711.00

खुली सावधि जमा राशि पर ब्याज

क्र.सं	बैंक का नाम	निवेश की राशि	कुल परिपक्व राशि	उपार्जित ब्याज 2024-25
1	केनरा बैंक	60,00,00,000.00	64,60,80,000.00	3,97,67,671.00
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-मोती बाग	1,55,00,00,000.00	1,67,52,29,981.00	3,58,11,375.00
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-आनंद निकेतन	7,00,00,000.00	7,55,32,820.00	19,92,080.00
4	भारतीय स्टेट बैंक-शास्त्री भवन	1,00,00,00,000.00	1,08,08,41,226.00	2,24,52,520.00
5	केनरा बैंक जनपथ	65,00,00,000.00	70,26,97,892.00	1,29,00,768.00
	कुल	3,87,00,00,000.00	4,18,03,81,919.00	11,29,24,414.00

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

15 जनपथ, नई दिल्ली- 110001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखों के भाग का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखांकन टिप्पणी

1 पृष्ठभूमि

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, (जिसे आगे 'प्रतिष्ठान' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जिसका उद्देश्य भारत और विदेश में जनसमूह के बीच डॉ. बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर के आदर्शों और संदेश को बढ़ावा देना है। इस प्रतिष्ठान की स्थापना भारत सरकार द्वारा कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के तत्वावधान के अधीन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में 24 मार्च, 1992 को की गई थी। यह प्रतिष्ठान वर्तमान में भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान महत्वपूर्ण और दीर्घावधि की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन के कार्य में जुटा हुआ है। यह प्रतिष्ठान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के लेखों और भाषणों के अनुवाद और प्रकाशन के कार्यों, विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पीठों की स्थापना और वित्त पोषण, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती और पुण्य तिथि समारोह के आयोजन, एससी/एसटी के कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने, एससी/एसटी समुदायों से संबंधित मेधावी छात्रों को माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं आदि में छात्रवृत्ति प्रदान करने और भारत रत्न डॉ.बी.आर.अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान अन्य किसी कार्यक्रम को करने के कार्य में जुटा हुआ है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 लेखांकन कंवेंशन

(क) वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार और वर्तमान में लागू विधियों के अनुरूप तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ऐतिहासिक लागत संबंधी कंवेंशन के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(ख) लेखांकन नीतियां वर्ष के दौरान निरंतर रूप से लागू होती हैं। जहां कहीं बदलती परिस्थितियों के अनुसार लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, इस संबंध में वित्तीय विवरण में विधिवत रूप से प्रकट किए गए ऐसे परिवर्तन के प्रभाव के साथ विस्तृत जानकारी दी जाती है।

(ग) लेखों को मुख्य रूप से इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- अम्बेडकर प्रतिष्ठान (डेफ): मुख्य रूप से कॉर्पस निधि पर आधारित कार्यकलापों की ओर निर्दिष्ट।
- बाबा साहेब अम्बेडकर का संकलित कार्य (सीडब्ल्यूबीए): बाबा साहेब अम्बेडकर के संबंध में पुस्तकों और उनके लेखों का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रचार सामग्री को वितरण के लिए विभिन्न भाषाओं में मुद्रित करने की ओर निर्दिष्ट।

(घ) पिछले वर्ष के आंकड़ों, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, को पुनः व्यवस्थित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

2.2 इवेंटरी का मूल्य निर्धारण

(क) सीडब्ल्यूबीए के प्रकाशन का अंतिम स्टॉक हिन्दी, उर्दू, पंजाबी भाषा को छोड़कर जिनमें 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है, सभी भाषाओं के मामलों में मुद्रित बिक्री मूल्य का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

2.3 निवेश

(क) निवेश को अधिग्रहण के समय उनके स्वरूप/धारित अवधि के आधार पर "वर्तमान निवेश" और "गैर-वर्तमान निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) जिन निवेशों को "गैर-वर्तमान निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, वे लागत पर आधारित होते हैं। ऐसे निवेशों की लागत का निर्धारण करते समय उनका मूल्य कम होने, अस्थायी निवेश को छोड़कर प्रावधान किया जाता है।

(ग) जिन निवेशों को "वर्तमान निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उन्हें कम लागत और उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। सभी निवेशों के मूल्य को एक साथ लेने की बजाए प्रत्येक निवेश के मूल्य में होने वाली कमी के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है।

(घ) प्राप्त निधियों को अल्प/दीर्घावधि निवेश आधार पर सावधि जमा राशि में तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी तत्संबंधी कॉर्पस निधि के अंतर्गत कोई मुख्य मूल व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है।

(ङ.) निवेश से राजस्व के रूप में प्राप्त आय का उपयोग प्रतिष्ठान के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है और शेष राशि संबंधित निधियों के आवंटन के लिए रिजर्व और अधिशेष के रूप में रखी जाती हैं।

(च) लागत में दलाली, ट्रांसफर स्टॉप आदि अधिग्रहण खर्च शामिल हैं।

2.4 नियत परिसंपत्तियां

(क) नियत परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास और नुकसान को कम करके अधिग्रहण की वास्तविक लागत के आधार पर बताया जाता है। अधिग्रहण लागत में अधिग्रहण और स्थापन से संबंधित कर, शुल्क, भाड़ा, बीमा और अन्य प्रासंगिक खर्च शामिल हैं और उसमें निवल मोडवेट क्रेडिट, जहां कहीं लागू हो, शामिल होता है।

(ख) गैर-मुद्रिक अनुदान के रूप में प्राप्त नियत परिसंपत्तियां (कॉर्पस निधि के अतिरिक्त) का मूल्य निर्धारण पूंजीगत

रिजर्व में अनुरूपी क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

2.5 मूल्यहास

(क) मूल्यहास का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार बट्टा खाता पद्धति के आधार पर किया जाता है।

(ख) वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों में जमा/घटा के संबंध में, मूल्यहास की गणना अनुपातिक आधार पर की जाती है।

(ग) ₹5000 या उससे कम की परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यहास का प्रावधान पूरी तरह से किया जाता है

2.6 राजस्व की मान्यता

(क) बिक्री तभी मानी जाती है जब प्राप्ति/जारी करने संबंधी विवरण और अंतिम स्टॉक की सूचना संबंधित वितरक से प्राप्त होती है अथवा भुगतान राशि प्राप्त होती है, जो भी पहले हो, ग्राहक से पुख्ता आदेश प्राप्त होने पर ही वर्ष के दौरान की गई बिक्री के संबंध में समायोजन-पूर्व प्रविष्टियां रिकार्ड की जाती हैं।

(ख) बिक्री से प्राप्त आय, छूट और ट्रेड संबंधी छूट बिक्री के भाग हैं।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के बचत बैंक खाते में अर्जित ब्याज को व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से उपार्जित आय की बजाय प्राप्ति आधार पर रिकार्ड किया गया है।

2.7 सरकारी अनुदान

(क) परियोजनाओं को स्थापित करने की पूंजीगत लागत के प्रति अंशदान के रूप में सरकारी अनुदान को पूंजीगत रिजर्व के रूप में माना गया है।

(ख) सरकारी अनुदान/सब्सिडी को वास्तविक आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

2.8 कर निर्धारण

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई कर योग्य आय नहीं होगी, आयकर के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

2.9 स्थापना संबंधी व्यय

(क) छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के सेवा निवृत्ति लाभ को उनका वास्तविक रूप से भुगतान करते समय ध्यान में रखा जाता है। उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ख) परामर्शदाताओं को दिया जाने वाला वेतन स्थापना संबंधी व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(ग) कर्मचारियों को उनके नियमित वेतन के अतिरिक्त बाल शिक्षण भत्ता, चिकित्सा भत्ता, एलटीसी, मानदेय, बोनस आदि का नकदी लाभ भी दिए जाते हैं।

2.10 समयावधि पूर्व समायोजन

पिछले वर्षों से संबंधित खर्च/आय को वर्तमान वर्ष में "समय पूर्व समायोजन" शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और जब कभी भी आवश्यक होता है उन्हें लेखा संबंधी टिप्पणी में भी दर्शाया जाता है।

2.11 विविध आय

लेखांकन वर्ष के लिए विविध आय में छात्रवृत्ति आवर्ड, चिकित्सा सहायता योजना और अन्य विविध आय से प्राप्त राशि शामिल है।